

भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2468
10 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

कच्चे इस्पात की उत्पादन क्षमता

2468. श्री अनूप संजय धोत्रे:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा कच्चे इस्पात की उत्पादन क्षमता और इसके वास्तविक उत्पादन के बीच अंतर है और यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त अंतर को पाटने के लिए सरकार द्वारा कितने विशेष प्रयोज्य माध्यम (एसपीवी) बनाए गए हैं और उनकी एसपीवी-वार उपलब्धियां क्या हैं;
- (ग) देश में इस कार्यक्रम की शुरुआत से अब तक, सरकारी/निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा सरकार के मेक-इन-इंडिया कार्यक्रम में भाग लेने के प्रयोजन से अपने विस्तार और आधुनिकीकरण हेतु किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार का उक्त कार्यक्रम में इस्पात कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए इस्पात संयंत्रों की स्थापना हेतु मानकों में छूट देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इस्पात मंत्री

(श्री एच.डी. कुमारास्वामी)

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष अर्थात् अप्रैल-अक्टूबर 2024-25 (अनंतिम) के दौरान भारत में अग्रणी उत्पादकों द्वारा कच्चे इस्पात के क्षेत्रवार (सार्वजनिक/निजी), क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग के आंकड़े **अनुलग्नक** में दिए गए हैं।

(ख) से (घ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण तैयार कर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। सरकार के मेक-इन इंडिया कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आधुनिकीकरण और विस्तार पर निर्णय व्यक्तिगत कंपनियों द्वारा लिए गए तकनीकी-वाणिज्यिक निर्णय हैं। इस्पात मंत्रालय ने इस्पात क्षमता के निर्माण के लिए कोई विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) नहीं बनाया है।

कच्चा इस्पात ('000 टन)												
उत्पादक	2021-22			2022-23			2023-24			अप्रैल-अक्टूबर 2024-25*		
	कार्य क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	कार्य क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	कार्य क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	कार्य क्षमता#	उत्पादन	% उपयोग^
सार्वजनिक क्षेत्र												
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)	20.632	17.363	84	20.632	18.292	89	20.632	19.240	93	20.632	11.060	92
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)	6.300	5.272	84	7.300	4.137	57	7.300	4.411	60	7.300	1.797	42
एनएमडीसी स्टील लिमिटेड (एनएसएल)*			—			—	3.000	0.540	-	3.000	0.737	42
कुल सार्वजनिक क्षेत्र	26.932	22.636	84	27.932	22.429	80	30.932	24.192	78	30.932	13.594	75
निजी क्षेत्र												
टीएसएल समूह	20.600	19.464	94	20.600	19.805	96	21.500	20.783	97	21.581	12.412	99
एम /एनएस	9.600	7.295	76	9.600	6.688	70	9.600	7.683	80	9.600	4.243	76
जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	23.000	18.023	78			—			—			-
जेएसडब्ल्यू ग्रुप			—	25.750	23.623	92	28.080	25.608	91	28.080	14.710	90
जेएसपीएल	8.100	7.458	92	8.100	7.509	93	9.600	7.645	80	9.600	3.868	69
अन्य बीओएफ	3.177	2.070	65	3.177	2.127	67	3.177	2.185	69	3.177	1.113	60
अन्य ईएएफ	11.614	8.138	70	8.743	4.815	55	7.828	5.121	65	9.248	3.091	57
आईएफ इकाईयां	51.040	35.211	69	57.397	40.201	70	68.797	51.081	74	77.731	32.374	71
कुल निजी क्षेत्र	127.130	97.658	77	133.367	104.768	79	148.583	120.107	81	159.017	71.811	77
कुल योग	154.062	120.293	78	161.299	127.197	79	179.515	144.299	80	189.949	85.405	77

स्त्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी); *एनएसएल ने सितंबर, 2023 से उत्पादन शुरू कर दिया है; #क्षमता पूरे वर्ष के लिए बताई गई है; ^प्रो-डेटा आधार पर गणना की गई है।